

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]	नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12—जुलाई 18, 2014 (आषाढ़ 21, 1936)
No. 28]	NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12—JULY 18, 2014 (ASADHA 21, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 3 जून 2014

सं.आरएस./6/4/2014/43-कार्मिक—भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में उप प्रबंधक, श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी, जिन्हें विभाग संबंधित गृह संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडु के वैयक्तिक स्टाफ में सह पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में विदेश सेवा शर्तों पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 19 मई, 2014 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत अपराह्न 2 जून, 2014 से समाप्त की जाती हैं।

2. श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी को 3 जून, 2014 से 30 जून, 2014 तक 28 दिनों का अवकाश प्रदान किया जाता है।

3. उपर्युक्त अवकाश-अवधि के समाप्त होने पर श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी की सेवाएं उनके मूल संगठन, अर्थात् भारत संचार निगम लिमिटेड के व्यवस्थाधीन आ जाएंगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 4 जून 2014

सं. आरएस./6/3/2014/45-कार्मिक—राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली के पदत्याग के परिणामस्वरूप, राज्य सभा में विपक्ष के नेता के सचिव के रूप में श्री सीमांचल दास की सेवाएं 27 मई, 2014 के पूर्वाह्न से समाप्त हो गई हैं और उनकी सेवाएं उनके मूल संगठन अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के व्यवस्थाधीन कर दी गई हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./6/3/2014/46-कार्मिक—राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली के पदत्याग के परिणामस्वरूप, राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर नियुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों की सेवाएं, उन्हें 27 मई 2014 से 15 दिन की परिसमापन अवधि प्रदान करने के पश्चात् 10 जून, 2014 से समाप्त हो जाएंगी:—

- i. श्री सुरेन्द्र दत्त रणकोटी, वरिष्ठ निजी सचिव
- ii. श्री गुरदीप सिंह वशीर, वरिष्ठ निजी सचिव
- iii. श्री सुरेंद्र प्रसाद देवरानी, निजी सचिव
- iv. श्री पद्म सिंह, निजी सचिव

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 11 जून 2014

सं.आरएस./6/4/2014/47-कार्मिक—राज्य सभा सचिवालय की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की अध्यक्ष डा. नजमा हेपतुल्ला के वैयक्तिक स्टाफ में सह पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्रीमती वत्सला जोशी की सेवाएं, 27 मई, 2014 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत अपराह्न 10 जून, 2014 से समाप्त की जाती हैं।

2. श्रीमती वत्सला जोशी को 21 मई, 2014 से 13 जून, 2014 तक 25 दिनों का अवकाश प्रदान किया जाता है।

3. अवकाश की उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् श्रीमती वत्सला जोशी की सेवाएं उनके मूल संगठन अर्थात् गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, हिमाचल प्रदेश को सुपुर्द की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 23 जून 2014

सं. आरएस./6/1/2014/49-कार्मिक—जेड. ए. नकवी को 20.06.2014 के पूर्वाह्न से सह-पदावसान आधार पर तथा आगामी आदेशों तक के लिए राज्य सभा के माननीय सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन बैंड-4 + 8700 रुपये के ग्रेड वेतन में विशेष सहायक नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

योजना आयोग**नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2014**

सं.ए.-12025/08/2014-प्रशा.।—राष्ट्रपति, योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सिविल अभियांत्रिकी) श्रीमती वंदना शर्मा को योजना आयोग में वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रु.+ ग्रेड वेतन 7600/- रु. में दिनांक 03/03/2004 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर उप सलाहकार (जलापूर्ति) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. ऊपर उल्लिखित तदर्थ नियुक्ति से उक्त अधिकारी को उप सलाहकार की श्रेणी में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा और उनके द्वारा उप सलाहकार की श्रेणी में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की न तो उप सलाहकार की श्रेणी में वरिष्ठता और न ही उच्चतर श्रेणी हेतु पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

एस. मुखर्जी, निदेशक

दिनांक 7 अप्रैल 2014

सं.ए.-12025/10/2009-प्रशा.।—राष्ट्रपति श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता, कनिष्ठ कार्य प्रबंधक, ऑर्डिनेन्स पैराशूट फैक्ट्री, कानपुर को 03.04.2014 (पूर्वाह्न) से सीधी भर्ती आधार पर योजना आयोग में वेतन बैंड 3, 15600-39100(+) ग्रेड वेतन 7600/- रु. में उपसलाहकार (वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक

दिनांक 9 अप्रैल 2014

सं.एफ.6(2098)/2014-प्रशा.।—मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 21.03.2014 के पत्राचार सं. 1-1/2009-सीएस (ए) (पार्ट), जिसमें श्री नंदन नीलकण्ठी के यूआईडीएआई के अध्यक्ष के पद से 13.03.2014 से त्यागपत्र की स्वीकृति की सूचना दी गई थी और योजना आयोग के दिनांक 26.03.2014 के उत्तरवर्ती समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुसरण में, श्री विजय एस मदान, महानिदेशक, यूआईडीएआई ने अपने मूल कार्यभार के अतिरिक्त दिनांक 27 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद का कार्यकारी कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. श्री विजय एस मदान का उपर्युक्त कार्यकारी कार्यभार, सरकार द्वारा यूआईडीएआई के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए होगा।

एस. मुखर्जी, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

सं.एफ.6(1672)/1996-प्रशा.।—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री ललित कुमार, जीसीएस अधिकारी एवं सलाहकार, योजना आयोग दिनांक 31-12-2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जी. राजीव अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2014

सं.ए-12025/12/2013-प्रशा.।—राष्ट्रपति, योजना आयोग के निम्नलिखित उपसलाहकारों को बैंड 4: 37400-67000/- रु. + ग्रेड वेतन 8700/- रु. में प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गए विषय में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर संयुक्त सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	पद का नाम	दिनांक से
1.	डॉ. ए. मनोहर	संयुक्त सलाहकार (पीईओ)	23.01.2014
2.	श्री एम. विजयकुमार	संयुक्त सलाहकार (वीएसआई)	23.01.2014
3.	डॉ. अशोक ए. सोनकुसेर	संयुक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान)	27.01.2014

2. ऊपर उल्लिखित तदर्थ नियुक्ति से उक्त अधिकारियों को संयुक्त सलाहकार की श्रेणी में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा और उनके द्वारा संयुक्त सलाहकार की श्रेणी में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की न तो संयुक्त सलाहकार की श्रेणी में वरिष्ठता और न ही अगली उच्चतर श्रेणी हेतु पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

जी. राजीव अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2014

सं.ए-12025/27/2012-प्रशा.।—योजना आयोग की दिनांक 13 फरवरी, 2013 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा संयुक्त सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति की एक वर्ष की अवधि पूरी कर लेने पर उन्हें

30 जनवरी, 2014 (अपराह्न) से योजना आयोग में वेतन बैंड-4: 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 7600/- में उपसलाहकार के रूप में उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	तदर्थ आधार पर धारित पद	प्रत्यावर्तित पद
1.	डॉ. अमिताभ राय	संयुक्त सलाहकार (ऊर्जा)	उप सलाहकार (डेटा बैंक)
2.	श्री. सुरेन्द्र सिंह सुर	संयुक्त सलाहकार (विद्युत)	उप सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग)
3.	श्री. सुधीर कुमार	संयुक्त सलाहकार (पर्यावरण एवं वन)	उप सलाहकार (अभियांत्रिकी)

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2014

सं.एफ 6(1926)/2005-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के अध्यक्ष (डॉ.सी. रंगराजन) की निजी सचिव (निदेशक स्तर) सुश्री सुशीला पंजवानी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को मौजूदा शर्तों पर दिनांक 27.08.2013 से 30.09.2013 तक बढ़ाते हैं और उन्हें 30.09.2013 के बाद सहकालिक आधार पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष निजी सचिव के रूप में संविदा आधार पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक या अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, पुनर्नियोजित करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2014

सं.ए.-12025/12/2013-प्रशा.I—राष्ट्रपति, योजना आयोग के निम्नलिखित नियमित उप-सलाहकारों को पे बैंड 4:37400-67000/-रु.+ ग्रेड वेतन 8700/- रु. में योजना आयोग में दिनांक 25/02/2014 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर संयुक्त सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	तदर्थ आधार पर नियुक्ति का पद
1.	श्री अमिताभ राय, उप-सलाहकार (डेटा बैंक)	संयुक्त सलाहकार (ऊर्जा)
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह सुर, उप-सलाहकार (ग्राम और लघु उद्योग)	संयुक्त सलाहकार (विद्युत)
3.	श्री सुधीर कुमार, उप-सलाहकार (अभियांत्रिकी)	संयुक्त सलाहकार (पर्यावरण और वन)

2. ऊपर उल्लिखित तदर्थ नियुक्ति से उक्त अधिकारियों को संयुक्त सलाहकार की श्रेणी में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा और उनके द्वारा संयुक्त सलाहकार की श्रेणी में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की न तो संयुक्त सलाहकार की श्रेणी में वरिष्ठता और न ही उच्चतर श्रेणी हेतु पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2014

सं.ए.-12025/08/2014-प्रशा.I—राष्ट्रपति, योजना आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (रसायानिक अभियांत्रिकी) डॉ. रंजन कुमार प्रधान को योजना आयोग में वेतन बैंड-3: 15600-39100/- रु.+ ग्रेड वेतन 7600/- रु. में दिनांक

26/02/2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर उप सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. ऊपर उल्लिखित तदर्थ नियुक्ति से उक्त अधिकारी को उप सलाहकार की श्रेणी में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा और उनके द्वारा उप सलाहकार की श्रेणी में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की न तो उप सलाहकार की श्रेणी में वरिष्ठता और न ही उच्चतर श्रेणी हेतु पदोन्नति के लिए पात्रता के उद्देश्य से गणना की जाएगी।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 11 मार्च 2014

सं.ए.-43011/10/2011-प्रशा.।—राष्ट्रपति, योजना आयोग के निम्नलिखित उप-सचिवों (सी.एस.एस.) को वर्ष 2013 के वरिष्ठ चयन वेतनमान (निदेशक) की पदोन्नति के लिए चयन सूची में समावेश होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 07/03/2014 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-4: 37400-67000 रु.+ग्रेड वेतन 8700/- रु. में नियमित आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्रीमती मेरी बी. बारला, (सी.एस.एल:4819)
2. श्रीमती जीवन शर्मा, (सी.एस.एल:4258)

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2014

सं.ए.-43011/07/2014-प्रशा.। (पार्ट I)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं.7/6/2013-ई.ओ. (एम.एम-।) दिनांक 20/02/2014 के अनुसरण में श्री जीतेन्द्र सिंह, आई.आर.एस.ई.ई. (1993) ने योजना आयोग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 20/03/2014 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2014

सं.एफ.6(1548)/1992-प्रशा.। (खण्ड II)—आर्थिक कार्य विभाग की फाइल सं.13016/1/2014-आईईएस से जारी किए गए दिनांक 5 मार्च, 2014 के आदेश सं.पी-1/2014 के अनुसरण में, श्रीमती सुधा पी राव, भारतीय आर्थिक सेवा की एसएजी स्तर की अधिकारी और सलाहकार, योजना आयोग को ग्रामीण विकास मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 26 मार्च, 2014 (अपराह्न) से योजना आयोग में उनके कार्यभार से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 28 मार्च 2014

सं.एफ.6(1937)/2005-प्रशा.।—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सुश्री शर्मिष्ठा बोस, उपसचिव (सी.एस.एस.) योजना आयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

जी.राजीव, अवर सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2014

सं.ए.-12025/16/2013-प्रशा.।—राष्ट्रपति, श्री अमिताभ रे, जो नियमित उपसलाहकार (डाटा बैंक) और वर्तमान में योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (तदर्थ) हैं, को दिनांक 28-04-2014(पूर्वाह्न) से नियमित पदोन्नति के आधार पर

8700/- रु. ग्रेड वेतन सहित 37400-67000/- रु. के वेतन बैंड 4 में योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (विद्युत) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2014

सं.एफ.6(2173)/2011-प्रशा.।—आर्थिक कार्य विभाग की फाईल संख्या 13016/3/2014- आई.ई.एस. से जारी आदेश संख्या टी. 2/2014, दिनांक 12 मार्च, 2014 के अनुसरण में आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. स्तर के अधिकारी और आर. ई. ओ. कोलकाता, योजना आयोग में निदेशक श्री सैकत सरकार (आई.ई.एस. :1955) को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) कोलकाता में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 6 मई, 2014 के अपराह्न से उनको कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2014

सं.एफ.6(2036)/2007-प्रशा.।—सेन्ट्रल स्टॉफिंग स्कीम के अंतर्गत योजना आयोग में निदेशक के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का बढ़ा हुआ कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, सुश्री नमिता मेहरोत्रा, आईआरएस (91) को दिनांक 15.5.2014 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है। सुश्री मेहरोत्रा को 16.05.2014 से 15.07.2014 तक दो माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. सुश्री नमिता मेहरोत्रा दिनांक 16.05.2014 से 15.07.2014 तक की अपनी अवकाश अवधि के दौरान अवकाश वेतन योजना आयोग से आहरित करेंगी।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2014

सं.एफ.6(2202)/2012-प्रशा.।—दक्षिण दिल्ली नगर निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति के फलस्वरूप योजना और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव श्री ज्ञानेश्वर सिंह, भा.पु.से. (एचपी:99), दिनांक 20.05.2014 के अपराह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त हो गए हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जून 2014

सं. ए-19011/119/14-यू.आई.डी.ए.आई.।—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 07.05.2013-ई. ओ. (एम. एम- I) दिनांक 10.01.14 के तहत सूचित, केबिनेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी के अनुमोदन तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के रिलीविंग ऑर्डर सं. जी.टी./स्था-I/जे.ए.जी./14-15/142 दिनांक 26.05.14 के अनुसरण में, श्री पीयूष चेतिया (आई.टी.एस.-1994) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.), के क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में, वेतन बैंड 37,400-67,000 (पे बैंड-4) + 8700 रु. ग्रेड पे, में 02.06.2014 (पूर्वाह्न) से सहायक महानिदेशक (ए.डी.जी.) के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती पांच वर्षों के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन. के. शर्मा, उप-महानिदेशक (स्था.)

दिनांक 20 जून 2014

सं. ए-19012/83/14-यू.आई.डी.ए.आई.।—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं.-12013/21/एस.ओ./हैडक्वार्टर/11-यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 21.03.2014, तथा नवोदय विद्यालय समिति कार्यालय के कार्यालय

आदेश सं. एम.-16/90-एन.वी.एस. (प्रशा.)/612 दिनांक 13.06.2014 के अनुसरण में, श्री डी.एस. मेहरा ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड 9300-34,800 + 4800 रु. ग्रेड पे, में 13.06.2014 (अपराह्न) से अनुभाग अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एन. के. शर्मा, उप-निदेशक (स्था.)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 जून 2014

सं. ए-19011/120/14-यू.आई.डी.ए.आई.।—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं.-12013/21/ए.डी.जी. (डी.)/10-यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 19.03.2014, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 17/9/2009/ई.ओ. (एम.एम.-I) दिनांक 28.04.2014 तथा इस्पात मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 5(1)/2010-स्था. दिनांक 13.06.2014 के अनुसरण में, श्री सुनील प्रकाश भारद्वाज (आई.एस.एस.-98) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में वेतन बैंड 37,400-67,000+8700 रु. ग्रेड पे, में 16.06.2014 (पूर्वाह्न) से सहायक महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती 16.02.2017 तक या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एस. डी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (स्था.)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जून 2014

सं० ए-19/जी-ए/95/4586—डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से. (छत्तीसगढ़ : 86) जिनकी सेवाएं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 14/4/2008-ईओ (एसएम-I) दिनांक 24.01.2009 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निपटान पर रखी गई थी, को उनका कार्यकाल समाप्त होने पर, दिनांक 30.06.2014 (अपराह्न) से, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में उप निर्वाचन आयुक्त के पद से, संवर्ग को रिपोर्ट करने के लिए, एतद्द्वारा, कार्यमुक्त किया जाता है।

आदेश से,

ए. एन. दास, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2014

सं. ए. 32014/1/2009-प्रशा-I(वि.वि.)—सक्षम प्राधिकारी सहर्ष श्री बाल कृष्ण, सहायक (मुद्रण) को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर अधीक्षक(मुद्रण) के पद पर कार्य करने हेतु रूपए 9300-34800/- के वेतन बैंड-2 और रूपए 4600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 19.06.2014 से 30.09.2014 की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अधीक्षक (मुद्रण) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के लिए की जाएगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2014

सं. ए 32013/4/2013-प्रशा-I—ईओ प्रभाग के दिनांक 1 मार्च, 2014 के पत्र सं. 6/2/2014-ईओ-(एमएम-I) के तहत, केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु उनके चयन के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्रीमती अर्चना वर्मा, आईएएस (असम:95) को वेतनबैंड-4: 37,400-67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 10,000/-रु. में 3 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से दिनांक 06.02.2018 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी.के. सेनगुप्ता अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2014

सं. 14012/01/2014 - अ.भा.से.-।।।—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2011 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई तिथि (तिथियाँ) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	संवर्ग	स्थायी करने की तारीख
1	आदिल खान	असम मेघालय	29.08.2013
2	अनन्त लाल ज्ञानी	असम मेघालय	29.08.2013
3	अरूण कुमार केमभावी	असम मेघालय	29.08.2013
4	लक्ष्मनन एस	असम मेघालय	29.08.2013
5	रोशनी अपरानजी कोराती	असम मेघालय	29.08.2013
6	सिभी चक्रवर्ती साधु	असम मेघालय	29.08.2013
7	आलोक रंजन घोष	बिहार	29.08.2013
8	देवड़े निलेश रामचंद्र	बिहार	29.08.2013
9	हिमांशु शर्मा	बिहार	30.08.2013
10	महेंद्र कुमार	बिहार	29.08.2013
11	मिथिलेश मिश्रा	बिहार	29.08.2013
12	पंकज दीक्षित	बिहार	29.08.2013
13	राहुल कुमार	बिहार	29.08.2013
14	शिरसत कपिल अशोक	बिहार	29.08.2013
15	थ्यागराजन एस एम	बिहार	30.08.2013
16	भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र	छत्तीसगढ़	29.08.2013
17	चंदन कुमार	छत्तीसगढ़	29.08.2013
18	दीपक सोनी	छत्तीसगढ़	29.08.2013
19	निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर	छत्तीसगढ़	29.08.2013
20	संजीव कुमार झा	छत्तीसगढ़	29.08.2013
21	अजय प्रकाश	गुजरात	29.08.2013
22	कनकीपति राजेश	गुजरात	29.08.2013
23	मायात्रा सुजल जय अंथीभाल	गुजरात	29.08.2013
24	ओक आयुष संजीव	गुजरात	29.08.2013
25	आदित्य दहिया	हरियाणा	29.08.2013
26	अमित खत्री	हरियाणा	29.08.2013
27	विजयकुमार सिद्धप्पा भावीकाटी	हरियाणा	29.08.2013
28	विनय प्रताप सिंह	हरियाणा	29.08.2013
29	ललित जैन	हिमाचल प्रदेश	29.08.2013
30	रूग्वेद मिलिंद ठाकुर	हिमाचल प्रदेश	30.08.2013
31	विवेक भाटिया	हिमाचल प्रदेश	29.08.2013
32	भूपेंद्र कुमार	जम्मू कश्मीर	29.08.2013
33	अभिराम जी शंकर	कर्नाटक	29.08.2013
34	अनिरुद्ध श्रवण पी	कर्नाटक	29.08.2013

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	संवर्ग	स्थायी करने की तारीख
35	कुरमा राव एम	कर्नाटक	29.08.2013
36	पोम्मला सुनील कुमार	कर्नाटक	29.08.2013
37	शरत बी	कर्नाटक	29.08.2013
38	सिंधु बी	कर्नाटक	29.08.2013
39	अस्तिक कुमार पाण्डे	महाराष्ट्र	29.08.2013
40	चौधरी अभिजीत विश्वनाथ	महाराष्ट्र	29.08.2013
41	दीपा एस मुधोल	महाराष्ट्र	29.08.2013
42	एम देवेंद्र सिंह	महाराष्ट्र	29.08.2013
43	पी शिव शंकर	महाराष्ट्र	29.08.2013
44	रेखावार राहुल अशोक	महाराष्ट्र	29.08.2013
45	संजय मीणा	महाराष्ट्र	29.08.2013
46	सुशील खोदवेकर	महाराष्ट्र	29.08.2013
47	सौरव कुमार सुमन	मध्य प्रदेश	29.08.2013
48	वी एस चौधरी कोलासनी	मध्य प्रदेश	29.08.2013
49	विजयकुमार जे	मध्य प्रदेश	29.08.2013
50	मोहम्मद अली शिहाब ए	नागालैंड	29.08.2013
51	राजेश एस	नागालैंड	29.08.2013
52	अपनीत रियाएत	पंजाब	29.08.2013
53	अरविंद कुमार एम के	पंजाब	29.08.2013
54	बी श्रीनिवासन	पंजाब	29.08.2013
55	अभिमन्यु कुमार	राजस्थान	29.08.2013
56	अनुपमा जोरवाल	राजस्थान	29.08.2013
57	भगवती प्रसाद कलाल	राजस्थान	29.08.2013
58	हौलीयांलाल गुड़ते	राजस्थान	29.08.2013
59	नाकाते शिवप्रसाद मदन	राजस्थान	29.08.2013
60	संदेश नायक	राजस्थान	29.08.2013
61	शिवांगी स्वर्णकार	राजस्थान	29.08.2013
62	अनीश शेखर एस	तमिलनाडु	29.08.2013
63	चंद्र सेखर सखामुरी	तमिलनाडु	29.08.2013
64	के विजयकार्तिकेयन	तमिलनाडु	29.08.2013
65	एम अरविंद	तमिलनाडु	29.08.2013
66	मंत्री गोविंद राव	तमिलनाडु	29.08.2013
67	पी मधुसूदन रेड्डी	तमिलनाडु	29.08.2013
68	एस दिव्यदर्शनी	तमिलनाडु	29.08.2013
69	वी जय चंद्र भानु रेड्डी	तमिलनाडु	29.08.2013
70	डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव	उत्तराखण्ड	29.08.2013
71	नितिन सिंह भदौरिया	उत्तराखण्ड	29.08.2013
72	रवि झा	उत्तराखण्ड	29.08.2013
73	अभिषेक सिंह	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
74	अमित कुमार सिंह	उत्तर प्रदेश	29.08.2013

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	संवर्ग	स्थायी करने की तारीख
75	अरविंद मलप्पा बंगारी	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
76	दीपक मीणा	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
77	कृष्ण करुणेश	उत्तर प्रदेश	30.08.2013
78	कुणाल सिल्कु	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
79	मनीष कुमार वर्मा	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
80	मन्नन अख्तर	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
81	नवनीत सिंह चहल	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
82	पुलकित खरे	उत्तर प्रदेश	05.12.2013
83	ऋषिरेन्द्र कुमार	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
84	शिव सहाय अवस्थी	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
85	विशाक जी पुथेन किज़ाके	उत्तर प्रदेश	29.08.2013
86	दीपक प्रिया पी	पश्चिम बंगाल	29.08.2013
87	के राधिका अय्यर	पश्चिम बंगाल	29.08.2013
88	निखिल निर्मल	पश्चिम बंगाल	29.08.2013
89	एस अरुण प्रसाद	पश्चिम बंगाल	30.08.2013
90	सुरेंद्र कुमार मीणा	पश्चिम बंगाल	30.08.2013
91	यू स्वरूप	पश्चिम बंगाल	29.08.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 27 जून 2014

सं.11011/35/2014-प्रशि.(सप्रप्रसं)।—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के एएफएचक्यू सिविल सेवा संवर्ग के उप निदेशक, श्री प्रवीण प्रकाश अम्बष्ठ {03.04.2012 से सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन) के पद पर कार्यरत} को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 29.05.2014 से 02.04.2017 तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (सतर्कता पाठ्यक्रम) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल त्रिपाठी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2014

सं. ए.12018/1/2007—डीएफक्यूसी (भाग-II)—राष्ट्रपति पैनल वर्ष 2013-14 के लिए 3 फरवरी, 2014 को संघ लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में अध्यक्ष व विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों द्वारा विधिवत् अनुमोदित सिफारिशों पर, डा0 ए. रामकिशन, नियमित सहायक औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को 14 फरवरी, 2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक उसी संगठन में संशोधित वेतन संरचना पीबी-3 (15600-39100 रूपए) + ग्रेड वेतन 7600/-रूपए (समूह 'क'-राजपत्रित गैर-अनुसचिवीय) और सामान्य स्वीकार्य भत्तों में औषध उप नियंत्रक (भारत) के पद पर नियमित अस्थाई हैसियत से नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति एक वर्ष की परीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के अधीन है। पदोन्नति पर यह अधिकारी सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति की तारीख अथवा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन के निर्धारण के विकल्प के हकदार हैं। ऐसे विकल्प का अवश्य ही पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तैनाती के आदेश, जहां आवश्यक हो, जारी करेगा।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

सं.ए. 32022/01/2012—डीएफक्यूसी—राष्ट्रपति 30 जनवरी, 2014 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत् अनुमोदित केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में निम्नलिखित नियमित तकनीकी अधिकारियों को 14 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी संगठन में वेतन ढांचे वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए (समूह क— राजपत्रित गैर-अनुसचिवीय) में स्थापन्न हैसियत से सहायक औषध नियंत्रक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

1. श्री सुनील एम. जोशी

2. डॉ. रवि कान्त शर्मा

2. अपनी नियमित पदोन्नति पर श्री सुनील एम. जोशी व डॉ. रवि कान्त शर्मा, सहायक औषध नियंत्रक (भारत) सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पदोन्नति की तारीख अथवा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में उनके वेतन को निर्धारित कराने के विकल्प के हकदार होंगे। ऐसे विकल्प का पदोन्नति की तारीख के एक महीने के भीतर अवश्य ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

4. उनके तैनाती के आदेश, जहां कहीं भी आवश्यक हो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2014

सं.ए. 11013/01/2009—डीएफक्यूसी—राष्ट्रपति, अधिसूचित भर्ती नियमों के शर्तों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्तता के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, डा० नारायणन मुरुगेशन (Dr. Narayanan Murugesan), निदेशक, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई को 13 जुलाई, 2010 से आगामी आदेशों तक 37400-67000 + ग्रेड वेतन 8700/- के अपग्रेडेड वेतनमान और संशोधित वेतन संरचना, वेतन बैंड -4 (समूह क राजपत्रित) के लिए लागू भत्तों पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

सं. ए-32022/01/2012—डीएफक्यूसी—मंत्रालय की दिनांक 19 फरवरी, 2014 की समसंख्यक अधिसूचना में सहायक औषध नियंत्रक (भारत) के पदों पर श्री सुनील एम.जोशी और डा० रवि कान्त शर्मा के संबंध में नियुक्ति की तिथि को 14 फरवरी, 2014 (पूर्वाह्न) के स्थान पर 12 फरवरी, 2014 (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2014

संख्या-ए 32022/01/2013—डीएफक्यूसी— राष्ट्रपति स्वास्थ्य विभाग के नियम 5 (समूह 'क' राजपत्रित गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक और तकनीकी पद) यथास्थान (इन सीटू) पदोन्नति नियम, 1990 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में गठित विभागीय मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर, श्री सी. हरिहरन, जीवाणु विज्ञानी और डा० सरोज कुमार घोष, बायोकेमिस्ट, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को यथास्थान आधार पर दिनांक 11 मार्च, 2014 से आगामी आदेशों तक वैज्ञानिक स्तर-2 (पीबी-3+ग्रेड वेतन 6600 रुपए/-) से वैज्ञानिक स्तर-3 (पीबी-3+ग्रेड वेतन 7600 रुपए/-) में पदोन्नत करते हैं।

2. तदनुसार, श्री सी. हरिहरन और डा० सरोज कुमार घोष द्वारा तत्काल में धारित क्रमशः जीवाणु विज्ञानी और बायोकेमिस्ट के पदों के ग्रेड को यथास्थान पदोन्नति नियम, 1990 (पूर्वोक्त) के नियम, 9 की शर्तानुसार उपरोक्त तिथि से पीबी-3 ग्रेड वेतन 7600/-रुपए के स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे रिक्त किए जाने पर यह मूल स्तर पर वापस आ जाएगा।

3. यथास्थान पदोन्नति होने पर, श्री सी. हरिहरन और डा० सरोज कुमार घोष, सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पदोन्नति की तिथि से अथवा अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि से संशोधित वेतन संरचना में अपने वेतन के निर्धारण के विकल्प के लिए पात्र होंगे। ऐसे विकल्प पर इन आदेशों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यवाई की जानी चाहिए।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

आयुष विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

संख्या 12025/5/2013-ई-1(आयुष) —राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ० अमजद अली को 20/11/2013 (पूर्वाह्न) से 15600-39100/-रु. के वेतनमान में ग्रेड वेतन 5400+एनपीए तथा नियमाधीन देय अन्य भत्तों वाले वेतन बैंड-3 में चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) नियुक्त करते हैं।

चंद्रशेखर, अवर सचिव

दिनांक 14 फरवरी 2014

संख्या ए.12023/2/2009-स्था.-1 आयुष----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ० एन. राधा को 37,400-67,000/-रु. के वेतनमान में ग्रेड वेतन 10000+एनपीए वाले वेतन बैंड-4 में 12.02.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक आयुष विभाग में सलाहकार (होम्योपैथी) नियुक्त करते हैं।

चंद्रशेखर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जून 2014

सं. 38017/1/2013-विपणन-1—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रपति, श्री. अक्षय याकूब, विपणन अधिकारी को वेतन बैंड-3 (15600-39100) + ग्रेड पे रु 5400/- में दिनांक 20.5.2014 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, शाखा प्रधान कार्यालय, नागपुर, में वरिष्ठ विपणन अधिकारी (वर्ग - I) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

अनीता महेन्द्र, अवर सचिव

सं. 38017/1/2013-विपणन-1—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रपति, श्री. गौरव विष्णु, विपणन अधिकारी को वेतन बैंड-3 (15600-39100) + ग्रेड पे रु 5400/-में दिनांक 19.5.2014 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद, में वरिष्ठ विपणन अधिकारी (वर्ग-I) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

अनीता महेन्द्र, अवर सचिव

सं. 38017/1/2013-विपणन-1—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार गुप्ता, विपणन अधिकारी को वेतन बैंड-3 (15600-39100) + ग्रेड पे रु 5400/- में दिनांक 19.5.2014 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद, में वरिष्ठ विपणन अधिकारी (वर्ग-I) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

अनीता महेन्द्र, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2014

सं. 5-10/2012-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.02.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/13/2012 सीएस-।(यू) के द्वारा वर्ष 2011 की सीएसएस की ग्रेड-। (अवर सचिव) की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को सीएसएस ग्रेड-। (अवर सचिव) पे बैंड पीबी-3, 15,600-39,100/- ग्रेड पे 6600/-रुपये पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 26.02.2014 से नियमित आधार नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस सं.
1	श्री सुदेश कुमार	7490
2	श्री बी.बी. बसेशंकर	7536

यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की शर्तों एवं निबंधनों के अधीन है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 18 मार्च 2014

सं. 5-6/2012-प्रशासन— राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 नवम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/1/2012-सीएस.। (एस) के अनुसरण में, श्री राजीव कुमार भाटिया, केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस) के एक नियमित सहायक को दिनांक 14/02/2014 के अपराह्न से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर पे बैंड-2, 9300-34800 + 4800/- रुपये में केंद्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 19 मार्च 2014

सं. 5-13/2013-प्रशासन— राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 मार्च, 2014 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस.। (डी) के अनुसरण में, श्री एच.एस. नंदा, केंद्रीय सचिवालय सेवा के एक नियमित चयनित ग्रेड(उप सचिव) अधिकारी को दिनांक 07 मार्च, 2014 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर पे बैंड-4 (37,400-67,000/-रुपये) के साथ ग्रेड पे 8700/-रुपये में वरिष्ठ चयनित ग्रेड (निदेशक) नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 21 मार्च 2014

सं. 5-13/2012-प्रशासन—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.03.2014 के आदेश सं. 4/7/2014-ईओ(एसएम.।) के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री ए.बी. जोशी भा.डा.से. (79) को 18 मार्च, 2014 की अपराह्न से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 21 अप्रैल 2014

सं. 4-1/2014-प्रशासन—अपनी सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, श्री अरुण कुमार जैन (भा.प्र.से-नागालैंड-77), सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 30.04.2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाएंगे।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 12 मई 2014

सं. 5-12/2013-प्रशासन : कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.05.2014 के आदेश सं. 4/13/2014-ईओ(एसएम.।) के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री शंकर अग्रवाल आई.ए.एस. (यूपी: 80) को 02 मई, 2014 के पूर्वाह्न से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

सं.5-13/2013 -प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के आदेश सं. 3/1/2011- सीएस-। (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के निम्नलिखित नियमित अधिकारियों को 8700/- रुपये के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-4 (37,400-67,000/- रुपये) में वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	केन्द्रीय चयन सूची सं.
1.	श्री घनश्याम देवनानी	4454
2.	श्री गुलशन लाल	4516

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2014

सं. 4-4/2012-प्रशासन—अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, श्रीमती उमा बाला मैनी, अनुभाग अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 31.05.2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाएंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 06 मई 2014

सं. ए-32013/1/2013-ई-। (बी) —कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. जा. सं. 3/2/2013-सीएस-।।(ए) दिनांक 30.04.2014 के तहत सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव की चयन सूची वर्ष 2013 में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राज मोहन अहलूवालिया, निजी सचिव को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 01.05.2014 (पूर्वाह्न) से 15,600-39,100 + 6600 रु. के वेतन ग्रेड के पे बैंड-3 में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2013

सं. ए-22016/1/2013-प्रशा.।।—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22/08/13 के का.जा.सं. 4/6/2013-सीएस-।।(ए) के तहत, सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड.बी/ग्रेड.।) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2009, 2010 और 2011 के परिणाम के आधार पर केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव (पीएस) के पद पर नियुक्ति हेतु इस मंत्रालय में ही नामांकन के

परिणामस्वरूप निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को पीबी-2, 9300-34800 रु.+ ग्रेड पे 4800 रु. में नीचे दी गई तारीख से नियमित आधार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे अपनी कार्यग्रहण की तारीख से अगले आदेशों तक नीचे उल्लिखित कार्यालय में तैनात किए जाते हैं:

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वरीयता सूची वर्ष जिसके लिए नामित किया गया/रैंक	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यग्रहण की तारीख	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तैनाती
1.	चंदर शेखर	2010/रैंक 24	23/08/13 (पूर्वाह्न)	मुख्य सचिवालय [सचिव (सूचना और प्रसारण) का कार्यालय]
2.	सुमन	2011/रैंक 26	23/08/13 (पूर्वाह्न)	आकाशवाणी महानिदेशालय

किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव

दिनांक 6 सितम्बर 2013

सं. 7/1/2007-प्रशासन.॥—केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की वरीयता सूची वर्ष 2010 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव, श्री एस. समादर का नाम शामिल किए जाने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20/03/2012 और 08/08/2013-के का.जा. सं.3/3/2011-सीएस.॥ (ए) द्वारा उनका नामांकन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए किए जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में इस मंत्रालय में दिनांक 02.09.2013 (पूर्वाह्न) को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर दिया है।

2. उन्हें इस मंत्रालय के कर्मचारी संख्या बल में शामिल किया जाता है और उसी तारीख से अगले आदेशों तक मुख्य सचिवालय में अपर सचिव (सू. व. प्र.) के कार्यालय में पदस्थ किया जाता है।

किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव,

दिनांक 9 सितम्बर 2013

सं. ए-22014/3/2013-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी की सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2009, 2010 और 2011 उत्तीर्ण करने और तत्पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/08/2013, 19/08/2013 और 30/08/2013 के का.जा.सं. 6/1/2012-सीएस-1(एस) के तहत परीक्षा कोटे में इस मंत्रालय में नामांकित किए जाने फलस्वरूप, केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (तदर्थ)/सहायकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। साथ ही, उन्हें मुख्य सचिवालय/संबद्ध कार्यालय की पंजीसूची (रोल) में शामिल किया जाता है और तत्पश्चात् इस मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उन्हें नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार तैनाती दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/ सुश्री)	पिछला मंत्रालय/विभाग	वरीयता सूची वर्ष/रैंक सं.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण की तारीख	इस मंत्रालय में दी गई तैनाती
1.	फणी तुलसी के.च.	ग्रामीण विकास	2009/49	23/08/2013 (अपराह्न)	दूरदर्शन, महानिदेशालय
2.	दीपक खतवानी	योजना आयोग	2009/88	02/09/2013 (पूर्वाह्न)	आकाशवाणी, महानिदेशालय
3.	रामेसन सी.वी.	ग्रामीण विकास	2009/90	30/08/2013 (पूर्वाह्न)	मुख्य सचिवालय में डेस्क अधिकारी [एफ(ए)] डेस्क

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/ सुश्री)	पिछला मंत्रालय/विभाग	वरीयता सूची वर्ष/रैंक सं.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण की तारीख	इस मंत्रालय में दी गई तैनाती
4.	सरिता गर्ग	युवा कार्य	2009/166	30/08/2013 (अपराह)	आकाशवाणी, महानिदेशालय
5.	सुदेश कुमार	कृषि	2009/276	04/09/2013 (पूर्वाह)	मुख्य सचिवालय में अनुभाग अधिकारी(बीसी-III)
6.	गुर कमल जीत सिंह	सामाजिक न्याय	2009/332	30/08/2013 (अपराह)	पीआईबी
7.	ललिता टी. हेडाऊ	संघ लोक सेवा आयोग	2009/345	29/08/2013 (अपराह)	डीपीडी
8.	अरुणा वर्मा	उर्वरक	2010/59	29/08/2013 (अपराह)	मुख्य सचिवालय में डेस्क अधिकारी [एफ(एफटीआई)]
9.	पदमा चरण पाधी	शहरी विकास	2010/68	30/08/2013 (अपराह)	आकाशवाणी, महानिदेशालय
10.	मोहन कुमार टी.	उपभोक्ता कार्य	2010/211	30/08/2013 (पूर्वाह)	मुख्य सचिवालय में डेस्क अधिकारी [एफ(सी)]
11.	कुलदीप सिंह	मुख्य सचिवालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2011/41	30/08/2013 (अपराह)	मुख्य सचिवालय में अनुभाग अधिकारी(बीएपी)
12.	सुनील भाटिया	आकाशवाणी, महानिदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2011/119	02/09/2013 (पूर्वाह)	आकाशवाणी, महानिदेशालय
13.	सौमित्र सेन	मुख्य सचिवालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2011/168	02/09/2013 (पूर्वाह)	डीपीडी
14.	साधु सिंह	मुख्य सचिवालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2011/181	02/09/2013 (पूर्वाह)	आकाशवाणी, महानिदेशालय
15.	सुनील कुमार वैद	आकाशवाणी, महानिदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2011/186	02/09/2013 (पूर्वाह)	दूरदर्शन महानिदेशालय
16.	सुरेश कुमार दिवान	पीआईबी सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2011/188	30/08/2013 (अपराह)	डीएवीपी

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/ सुश्री)	पिछला मंत्रालय/विभाग	वरीयता सूची वर्ष/रैंक सं.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण की तारीख	इस मंत्रालय में दी गई तैनाती
17.	पी. बालासुब्रमण्यम	आरएनआई का कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2011/190	02/09/2013 (पूर्वाह)	आरएनआई का कार्यालय

2. इसके अतिरिक्त, इनकी नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित शर्तों पर आधारित होगी।

किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2013

सं. ए-22015/2/2013-प्रशासन.॥—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30/08/2013 के का.ज्ञा. सं.3/6/2012-सीएस.॥ (ए) द्वारा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की वरीयता सूची वर्ष 2012 में दूरसंचार विभाग के निजी सचिव, श्री निरंजन कुमार उपाध्याय का नाम शामिल किए जाने और तत्पश्चात उनका नामांकन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए किए जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में इस मंत्रालय में दिनांक 11.09.2013 (पूर्वाह) को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर दिया है।

2. प्रधान निजी सचिव ग्रेड में श्री उपाध्याय को उनकी प्रोन्नति पर एतद्वारा तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक दूरदर्शन महानिदेशालय में पदस्थ किया जाता है।

किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव

दिनांक 26 सितम्बर 2013

सं. ए-22015/2/2013-प्रशा.॥—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.08.2013 के का.ज्ञा.सं. 3/6/2012-सीएस-॥(ए) के तहत केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की वरीयता सूची वर्ष 2012 में इस्तात मंत्रालय में निजी सचिव श्रीमती एस. गिरिजा का नाम शामिल किए जाने एवं तत्पश्चात् उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने 20.09.2013 के पूर्वाह से नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यग्रहण करने के लिए रिपोर्ट किया है, उन्हें एतद्वारा उसी तारीख से इस मंत्रालय के कर्मचारी संख्या बल में शामिल किया जाता है।

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में श्रीमती गिरिजा की पदोन्नति होने पर उन्हें एतद्वारा तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक पत्र सूचना कार्यालय में तैनात किया जाता है।

किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. 8/2/2011-प्रशा.॥—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.02.2013 एवं 07.06.2013 के का.ज्ञा.सं. 4/2/2012-सीएस-॥(ए) के तहत श्री एस. वेंकटसुब्रमणियन, निजी सचिव (तदर्थ) का नाम वर्ष 2010 के लिए निजी सचिव की वरीयता सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 20.06.2013 (पूर्वाह) से इस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के नियमित निजी सचिव (पीएस) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एस. वेंकटसुब्रमणियन की निजी सचिव के रूप में नियमित आधार पर पदोन्नति होने पर वह अगले आदेशों तक मुख्य सचिवालय में संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) के कार्यालय में कार्य करते रहेंगे।

किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. ए-22014/3/2013-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी की सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2009, 2010 और 2011 उत्तीर्ण करने और तत्पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/08/2013 और 30/08/2013 के का.जा.सं. 6/1/2012-सीएस-I(एस) के तहत परीक्षा कोटे में इस मंत्रालय में नामांकित किए जाने के फलस्वरूप, केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (तदर्थ)/सहायकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। साथ ही, उन्हें मुख्य सचिवालय/संबद्ध कार्यालय की पंजीसूची (रोल) में शामिल किया जाता है और तत्पश्चात् इस मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उन्हें नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार तैनाती दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/ सुश्री)	पिछला मंत्रालय/ विभाग	वरीयता सूची वर्ष/रैंक सं.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण की तारीख	इस मंत्रालय में दी गई तैनाती
1	लक्ष्मीकांत मंडल	शिक्षा	2009/28	09/09/2013 (पूर्वाह)	मुख्य सचिवालय में अनुभाग अधिकारी(सतर्कता-2)
2	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	खाद्य	2009/68	06/09/2013 (पूर्वाह)	आकाशवाणी महानिदेशालय
3	आर वेंकटेश्वरन	कृषि	2009/111	11/09/2013 (पूर्वाह)	आकाशवाणी महानिदेशालय
4	अनिता दिनेश	आर्थिक मामले	2009/206	06/09/2013(पूर्वाह)	वि.द.प्र. निदेशालय
5	नन्दलाल	खाद्य	2009/285	06/09/2013 (पूर्वाह)	पत्र सूचना कार्यालय
6	रजनी सक्सेना	स्वास्थ्य	2010/29	24/09/2013(पूर्वाह)	पत्र सूचना कार्यालय
7	बी स्वीमीनाथन	संस्कृति	2011/65	18/09/2013(पूर्वाह)	दूरदर्शन महानिदेशालय
8	के श्रीनिवास राव	संस्कृति	2011/74	17/09/2013(अपराह)	मुख्य सचिवालय में अनुभाग अधिकारी(बीएँडए)
9	सरत कुमार देहुरी	श्रम एवं रोजगार	2011/117	06/09/2013(अपराह)	आकाशवाणी महानिदेशालय

2. इसके अतिरिक्त, इनकी नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय जापनों में निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।

किशोर श्रीवास्तव अवर सचिव

दिनांक 25 अक्टूबर 2013

सं. ए-23020/2/2012-प्रशा.॥—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23/09/2013 के का.जा. सं. 5/13/2012-सीएस-I(यू), जिसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) की वरीयता सूची वर्ष 2011 में शामिल किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया गया है, के अनुसरण में इस मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अधिकारियों को, जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं एतद्वारा 23.09.2013 अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के

यथोक्त का.जा. को जारी करने की तारीख से केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	सीएसएलसं.	वर्तमान कार्यालय
1.	पारिजात दिवान	6862	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
2.	अनिल कुमार पाण्डेय	6878	मुख्य सचिवालय
3.	राजेश कुमार	6910	मुख्य सचिवालय
4.	शैलेश गौतम	7002	मुख्य सचिवालय
5.	श्री भगवान पाण्डेय	7008	मुख्य सचिवालय
6.	नीरज कुमार	7130	मुख्य सचिवालय
7.	रणवीर सिंह	7500	मुख्य सचिवालय

किशोर श्रीवास्तव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2014

सं. ए-23021/1/2013-प्रशासन.॥—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2013 के का.जा.सं. 6/2/2013-सीएस-1 (एस)-॥ के तहत इस मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के नियमित सहायक (1996/199), श्री एस.एन. नौटियाल, जो वर्तमान में दूरदर्शन महानिदेशालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, का नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के वरिष्ठता कोटा में वर्ष 2011 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें चयन सूची वर्ष 2011 के लिए नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनकी नियुक्ति/समावेशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित का.जा. में यथा निर्धारित शर्तों के अधीन है।

भास्कर बंधोपाध्याय, अवर सचिव

दिनांक 30 मई 2014

सं. ए-22015/2/2013-प्रशा.॥—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30/04/2014 के का.जा.सं. 3/2/2013-सीएस-॥ (ए) के द्वारा इस मंत्रालय के आकाशवाणी महानिदेशालय में पदस्थ निजी सचिव श्री एस. सिवारामा कृष्णन का नाम केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की वरीयता सूची वर्ष 2013 में शामिल किए जाने और तदनन्तर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.05.2014 के द्वारा उन्हें 8 महीने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में रोके जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने 02.05.2014 के पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में पीबी-3, रु. 15600-39100/- रु. + ग्रेड पे 6600/- रु. में प्रधान निजी सचिव के रूप में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया है, उन्हें एतद्वारा उसी तारीख से इस मंत्रालय के कर्मचारी संख्या बल में शामिल किया जाता है और आकाशवाणी महानिदेशालय में ही तैनात किया जाता है। श्री एस. सिवारामा कृष्णन को प्रधान निजी सचिव के पद पर अपनी नियमित पदोन्नति पर व्यय विभाग में नामित समझा जाएगा।

2. उन्हें 8 महीने पूरा करने के पश्चात अर्थात् दिनांक 02.01.2015 को व्यय विभाग में प्रधान निजी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा।

भास्कर बंधोपाध्याय, अवर सचिव

सं. ए-22015/2/2013-प्रशा.॥—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30/04/2014 के का.जा.सं. 3/2/2013-सीएस.॥ (ए) के तहत इस मंत्रालय के निम्नलिखित नियमित सचिवों के नाम केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की वरीयता सूची वर्ष 2013 में शामिल किए जाने और उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने अपने-अपने नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से इस मंत्रालय में पीपी-3, 15600-39100/- रु. + ग्रेड पे 6600/- रु. में प्रधान निजी सचिव के रूप में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर दिया है। साथ ही उन्हें अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक नीचे उल्लिखित कार्यालयों में तैनात किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पीपीएस की वर्ष की वरीयता सूची	संवर्ग/कार्यालय जहां कार्य कर रहे हैं	सू. और प्र. मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	सू. और प्र. मंत्रालय में तैनाती
1.	श्री गुरमुख चंदवानी	2013	आकाशवाणी	30.04.2014 (पूर्वाहन)	आकाशवाणी से अधिवर्षिता की आयु के पश्चात दिनांक 30.04.2014 (अपराहन) को सेवानिवृत्ति
2.	श्रीमती गीता श्रीधरन	2013	पत्र सूचना कार्यालय	30.04.2014 (पूर्वाहन)	पत्र सूचना कार्यालय
3.	श्रीमती संतोष जयंत	2013	दूरदर्शन	30.04.2014 (पूर्वाहन)	दूरदर्शन
4.	श्री मनमोहन सिंह*	2013	वाणिज्य	09.05.2014 (पूर्वाहन)	प्रकाशन विभाग

* श्री मनमोहन सिंह माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कार्यालय में उधार आधार पर कार्य करेंगे।

भास्कर बंधोपाध्याय, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd June 2014

No. RS/6/4/2014/43-Perl.—The services of Shri K.S.C.S.V.P. Gandhi, Deputy Manager in B.S.N.L., New Delhi, who was appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Shri M. Venkaiah Naidu, Chairman, Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on foreign service terms, stand terminated w.e.f. the afternoon of 2nd June, 2014 after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. 19th May, 2014.

2. Shri K.S.C.S.V.P. Gandhi is granted leave for 28 days from 3rd June, 2014 to 30th June, 2014.

3. On expiry of the aforesaid period of leave, the services of Shri K.S.C.S.V.P. Gandhi shall stand placed at the disposal of his parent organization, i.e. BSNL.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 4th June 2014

No. RS/6/3/2014/45-Perl.—Consequent upon demission of office of Leader of Opposition, Rajya Sabha by Shri Arun Jaitley, the services of Shri Simanchala Dash as Secretary to Leader of Opposition, Rajya Sabha stand terminated w.e.f. forenoon of 27th May, 2014 and his services placed at the disposal of his parent organization, i.e., Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS/6/3/2014/46-Perl.—Consequent upon demission of office of Leader of Opposition, Rajya Sabha by Shri Arun Jaitley, the services of following persons who were appointed on co-terminus basis in the personal staff of the Leader of Opposition, Rajya Sabha shall stand terminated w.e.f. 10th June, 2014 after granting them a winding up period of 15 days w.e.f. 27th May, 2014 :—

- (i) Shri Surender Datt Ranakoti, Senior Private Secretary
- (ii) Shri Gurdeep Singh Vasir, Senior Private Secretary
- (iii) Shri Surender Prasad Devrani, Private Secretary
- (iv) Shri Padam Singh, Private Secretary

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 11th June 2014

No. RS/6/4/2014/47-Perl.—The services of Smt. Vatsala Joshi who was appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Chairperson of Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha Secretariat [Dr. Najma Heptulla] stand terminated w.e.f. the afternoon of 10th June, 2014 after granting her a winding up period of 15 days w.e.f. 27th May, 2014.

2. Smt. Vatsala Joshi is granted leave for 25 days from 21st May, 2014 to 13th June, 2014.

3. On expiry of the aforesaid period of leave, the services of Smt. Vatsala Joshi shall stand placed at the disposal of her parent organization, i.e. Govt. Degree College, Himachal Pradesh.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 23rd June 2014

No. RS/6/1/2014/49-Perl.—Shri Z.A. Naqvi has been appointed as Special Assistant in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha in the scale of pay of Pay Band-4 + Grade Pay of Rs.8,700/- w.e.f. the forenoon of 20.06.2014 on co-terminus basis and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 7th March 2014

No. A-12025/08/2014-Adm.I.—The President is pleased to appoint Smt. Vandana Sharma, Senior Research Officer (Civil Engg.), Planning Commission as Deputy Adviser (Water Supply) in Planning Commission in the Pay Band 3 : Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 03.03.2014 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on the above officer any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by her on ad-hoc basis in the grade of Deputy Adviser would count neither for the purpose of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the higher grade.

S. MUKHERJEE, Dir.

The 7th April 2014

No. A-12025/10/2009-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Upendra Kumar Gupta, Junior Work Manager, Ordinance Parachute Factory, Kanpur as Deputy Adviser (Textiles), Planning Commission in the Pay Band : 3, Rs. 15,600—39,100/- (+) Grade Pay of Rs. 7,600/- on Direct Recruitment basis w.e.f. 3.4.2014 (FN).

S. MUKHERJEE, Dir.

The 9th April 2014

No. F.6 (2098)/2014-Adm.I.—In pursuance of Cabinet Secretariat Communication No. 1-1/2009-CS(A) (Pt) dated 21.03.2014 conveying the acceptance of resignation Shri Nandan Nilekani from the post of Chairman, UIDAI, w.e.f. 13.03.2014 and subsequent office order of Planning Commission of even number dated 26.03.2014, Shri Vijay S Madan, DG, UIDAI has assumed acting charge of the post of Chairman, Unique Identification Authority of India in addition to his substantive charge w.e.f. the forenoon of 27th March, 2014.

2. The above acting charge by Shri Vijay S Madan will be for the period till the Government appoints full time Chairman, UIDAI or until further orders, whichever is earlier.

S. MUKHERJEE, Dir.

New Delhi, the 31st December 2013

No. F.6(1672)/1996-Adm.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Lalit Kumar, a GCS officer and Adviser, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 31.12.2013 (A.N.).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 30th January 2014

No. A-12025/12/2013-Adm.I.—The President is pleased to appoint the following Deputy Advisers of Planning Commission as Joint Adviser in the discipline mentioned against each in Pay Band 4 : Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. from the date mentioned against each or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name of the Officer	Name of the Post	w.e.f.
1.	Dr. A. Manohar	Joint Adviser (PEO)	23.01.2014
2.	Shri M. Vijayakumar	Joint Adviser (VSI)	23.01.2014
3.	Dr. Ashok A. Sonkusare	Joint Adviser (Scientific Research)	27.01.2014

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on the above officers any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by them on ad-hoc basis in the grade of Joint Adviser would count neither for the purpose of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 5th February 2014

No. A-12025/27/2012-Adm.I—In continuation of Planning Commission's notification of even number dated 13th February, 2013, on completion of one year period of ad hoc appointment as Joint Advisers by the following officers they are reverted to their substantive post of Deputy Adviser in Planning Commission in the Pay Band-4: Rs. 15,600—39100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 30th January, 2014 (AN) :—

S. No.	Name of the officer	Post held on ad hoc basis	Post reverted to
1.	Shri Amitabha Ray	Joint Adviser (Energy)	Deputy Adviser (Data Bank)
2.	Shri Surinder Singh Sur	Joint Adviser (Power)	Deputy Adviser (Village and Small Industries)
3.	Shri Sudhir Kumar	Joint Adviser (Environment & Forests)	Deputy Adviser (Engineering)

G. RAJEEV, Under Secy.

The 10th February 2014

No. F.6(1926)/2005-Adm.I—The President is pleased to extend to tenure of deputation of Ms. Suhsila Panjawani, Private Secretary (Director level) to the Chairman, EAC to PM (Dr. C. Rangarajan) beyond 27.08.2013 upto 30.09.2013 on existing terms and conditions and to further appoint her on re-employment on contract basis as PS to Chairman, EAC to PM on co-terminus basis beyond 30.09.2013 or till she ceases to function as Private Secretary to the Chairman, EAC to the Prime Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 26th February 2014

No. A-12025/12/2013-Adm.I—The President is pleased to appoint the following regular Deputy Advisers of Planning Commission as Joint Advisers, against the post/discipline mentioned against each, in Planning Commission in the Pay Band 4 : Rs. 37,400—67000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 25.2.2014 (FN) or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name of the officer	Post appointed on ad hoc basis
1.	Shri Amitabha Ray, Deputy Adviser (Data Bank)	Joint Adviser (Energy)
2.	Shri Surinder Singh Sur, Deputy Adviser (Village and Small Industries)	Joint Adviser (Power)
3.	Shri Sudhir Kumar, Deputy Adviser (Engineering)	Joint Adviser (Environment & Forests)

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on the above officer any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Joint Adviser would count neither for the purpose of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 28th February 2014

No. A-12025/08/2014-Adm.I.—The President is pleased to appoint Dr. Ranjan Kumar Pradhan, Senior Research Officer (Chemical Engg.), Planning Commission as Deputy Adviser (Scientific Research) in Planning Commission in the Pay Band 3 : Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 26.02.2014 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on the above officer any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Deputy Adviser would count neither for the purpose of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 11th March 2014

No. A-43011/10/2011-Adm.I.—Consequent upon their inclusion in the Select List for promotion to the Senior Selection Grade (Director) for the year 2013, the President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries (CSS) of Planning Commission as Director in the Pay Band 4 : Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on regular basis w.e.f. from 07.03.2014 (FN).

1. Smt. Mary B. Barla, (CSL : 4819)
2. Smt. Jeewan Sharma, (CSL : 4258)

G. RAJEEV, Under Secy.

The 20th March 2014

No. A-43011/07/2014-Admn.I (Part I)—In pursuance of Dept. of Personnel & Training's OM No. 7/6/2013-EO(MM-I) dated 20.02.2014, Shri Jeetendra Singh, IRSEE(1993) has assumed charge of the post of Director in the Planning Commission, on central deputation basis, for a tenure of five years w.e.f. 20.03.2014 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 26th March 2014

No. F.6(1548)/1992-Adm.I (Vol.II)—In pursuance of Department of Economic Affairs order No. P-1/2014 issued from their file No. 13016/1/2014-IES dated 5th March, 2014, Smt. Sudha P. Rao, a SAG level officer of IES and Adviser, Planning Commission is relieved of her duties in Planning Commission w.e.f. 26th March, 2014 (AN) to join as Chief Economic Adviser, Ministry of Rural Development.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 28th March 2014

No. F.6 (1937)/2005-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Ms. Sharmistha Bose, Deputy Secretary (CSS), Planning Commission retires from Government Service w.e.f. 31st March, 2014 (A.N.).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 30th April 2014

No. A-12025/16/2013-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Amitabha Ray, a regular Deputy Adviser (Data Bank) and at present Joint Adviser (ad hoc), Planning Commission, as Joint Adviser (Power) in Planning Commission in the Pay Band : 4, Rs. 37,400—67,000/- (+) Grade Pay of Rs. 8,700/- on regular promotion basis w.e.f. 28.4.2014 (FN).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 6th May 2014

No. F.6(2173)/2011-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs order No. T-2/2014 issued from their file No. 13016/3/2014-IES dated 12th March, 2014, Shri Saikat Sarkar, (IES:1995) a NFSG level officer of IES and Director, REO Kolkata, Planning Commission stands relieved from his duties w.e.f. the afternoon of 6th May, 2014 to join as Director in Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS), Kolkata.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 15th May 2014

No. F.6(2036)/2007-Adm.I—Consequent upon completion of her extended tenure of Central Deputation as Director in Planning Commission under Central Staffing Scheme, Ms. Namita Mehrotra, IRAS (91) stands relieved of her duties in Planning Commission w.e.f. the afternoon of 15.5.2014. Ms. Mehrotra is granted 2 months Earned Leave w.e.f. 16.5.2014 to 15.7.2014.

2. During the period of her leave w.e.f. 16.5.2014 to 15.7.2014, Ms. Namita Mehrotra will draw leave salary from Planning Commission.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 20th May 2014

No. F.6 (2202)/2012-Adm.I—Consequent upon his appointment as Chief Vigilance Officer in South Delhi Municipal Corporation Shri Gyaneshwar Singh, IPS (HP:99), PS to MOS (P&PA) stands relieved from Planning Commission with effect from the afternoon of 20.05.2014.

G. RAJEEV, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 9th June 2014

No. A-19011/119/14-UIDAI.—In pursuance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by the Department of Personnel & Training vide O.M No. 7/5/2013-EO (MM-I) dated 10.01.14 and Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) relieving Order No. GT/EST-1/JAG/14-15/142 dated 26.05.14, Shri Piyush Chetiya (ITS - 1994) has assumed the charge of the post of Assistant Director General (ADG) Unique Identification Authority of India, (UIDAI), Regional Office, Guwahati w.e.f 02.06.14 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 8,700/- for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

N. K SHARMA, Dy. Dir.
(Estt)

The 20th June 2014

No. A-19012/83/14-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI dated 21.03.14 and Navodaya Vidyalaya Samiti's Office Order No. M-16/90-NVS(Admn)/612 dated 13.06.2014, Shri D.S Mehra has assumed the charge of the post of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 13.06.14 (AN) in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

N. K SHARMA, Dy. Dir.
(Estt)

New Delhi-110001, the 24th June 2014

No. A-19011/120/14-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. 12013/21/ADG (D)/ 10-UIDAI dated 19.03.2014, Department of Personnel & Training O.M No.

F. No. 17/9/2009-EO (MM-I) dated 28.04.2014 and Ministry of Steel Office Order No. 5(1)/2010-Estt. Dated 13.06.2014, Shri Sunil Prakash Bhardwaj, ISS (98) has assumed the charge of Assistant Director General in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f 16.06.2014 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 8,700/- for a period upto 16.02.2017 or until further orders, whichever is earlier.

S. D SHARMA, Asstt. Dir. Genl.
(Estt)

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 24th June 2014

No. A-19/G-A/95/586—Dr. Alok Shukla, IAS (CG:86) whose services were placed at the disposal of the Election Commission of India vide the M/o Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training reference No. 14/4/2008-EO (SM. I) dated 24.01.2009, is hereby relieved from the post of Deputy Election Commissioner in the Secretariat of the Election Commission of India, on completion of his tenure, with effect from 30.06.2014(A/N), to report to the cadre.

A. N. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 23rd June 2014

No. A-32014/1/2009-Admn.I(L.D.)—The Competent Authority is pleased to appoint Shri Bal Krishan, Assistant (Printing) to officiate as Superintendent (Printing) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on *ad hoc* basis for a period from 19.06.2014 to 30.09.2014 or until further orders, whichever is earlier.

4. This *ad hoc* appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Superintendent (Printing) nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 4th June 2014

No. A-32013/4/2013-Ad.I—Consequent upon her selection for appointment as Joint Secretary under the Central Staffing Scheme vide EO Division's communication No. 6/2/2014-EO(SM.I) dated 1st March, 2014, the President is pleased to appoint Ms. Archana Varma, IAS (AM:95) as Joint Secretary in Department of Personnel and Training in the Pay Band PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from forenoon of 3rd March, 2014 for a period of five years upto 06.02.2018 or until further orders, whichever is earlier.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 23rd June 2014

No. 14012/01/2014 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service of 2011 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name of Officer (Ms/S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
1	ADIL KHAN	ASSAM MEGHALAYA	29.08.2013
2	ANANT LAL GYANI	ASSAM MEGHALAYA	29.08.2013

Sl. No.	Name of Officer (Ms/S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
3	ARUNKUMAR KEMBHAVI	ASSAM MEGHALAYA	29.08.2013
4	LAKSHMANAN S	ASSAM MEGHALAYA	29.08.2013
5	ROSHNI APARANJI KORATI	ASSAM MEGHALAYA	29.08.2013
6	SIBHI CHAKRAVARTHY SADHU	ASSAM MEGHALAYA	29.08.2013
7	ALOK RANJAN GHOSH	BIHAR	29.08.2013
8	DEORE NILESH RAMCHANDRA	BIHAR	29.08.2013
9	HIMANSHU SHARMA	BIHAR	30.08.2013
10	MAHENDRA KUMAR	BIHAR	29.08.2013
11	MITHILESH MISHRA	BIHAR	29.08.2013
12	PANKAJ DIXIT	BIHAR	29.08.2013
13	RAHUL KUMAR	BIHAR	29.08.2013
14	SHIRSAT KAPIL ASHOK	BIHAR	29.08.2013
15	THIYAGARAJAN S M	BIHAR	30.08.2013
16	BHURE SARVESHWAR NARENDRA	CHHATISGARH	29.08.2013
17	CHANDAN KUMAR	CHHATISGARH	29.08.2013
18	DEEPAK SONI	CHHATISGARH	29.08.2013
19	NILESHKUMAR MAHADEV KSHIRSAGAR	CHHATISGARH	29.08.2013
20	SANJEEV KUMAR JHA	CHHATISGARH	29.08.2013
21	AJAY PRAKASH	GUJARAT	29.08.2013
22	KANKIPATI RAJESH	GUJARAT	29.08.2013
23	MAYATRA SUJAL JAY ANTHIBHAL	GUJARAT	29.08.2013
24	OAK AAYUSH SANJEEV	GUJARAT	29.08.2013
25	ADITYA DAHIYA	HARYANA	29.08.2013
26	AMIT KHATRI	HARYANA	29.08.2013
27	VIJAYKUMAR SIDDAPPA BHAVIKATTI	HARYANA	29.08.2013
28	VINAY PRATAP SINGH	HARYANA	29.08.2013
29	LALIT JAIN	HIMACHAL PRADESH	29.08.2013
30	RUGVED MILIND THAKUR	HIMACHAL PRADESH	30.08.2013

Sl. No.	Name of Officer (Ms/S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
31	VIVEK BHATIA	HIMACHAL PRADESH	29.08.2013
32	BHUPINDER KUMAR	JAMMU KASHMIR	29.08.2013
33	ABHIRAM G SANKAR	KARNATAKA	29.08.2013
34	ANIRUDH SRAVAN P	KARNATAKA	29.08.2013
35	KURMA RAO M	KARNATAKA	29.08.2013
36	POMMALA SUNIL KUMAR	KARNATAKA	29.08.2013
37	SHARAT B	KARNATAKA	29.08.2013
38	SINDHU B	KARNATAKA	29.08.2013
39	ASTIK KUMAR PANDEY	MAHARASHTRA	29.08.2013
40	CHAUDHARI ABHIJEET VISHVANATH	MAHARASHTRA	29.08.2013
41	DEEPA S MUDHOL	MAHARASHTRA	29.08.2013
42	M DEVENDER SINGH	MAHARASHTRA	29.08.2013
43	P SIVA SANKAR	MAHARASHTRA	29.08.2013
44	REKHAWAR RAHUL ASHOK	MAHARASHTRA	29.08.2013
45	SANJAY MEENA	MAHARASHTRA	29.08.2013
46	SUSHIL KHODWEKAR	MAHARASHTRA	29.08.2013
47	SAURAV KUMAR SUMAN	MADHYA PRADESH	29.08.2013
48	V S CHOUDARY KOLASANI	MADHYA PRADESH	29.08.2013
49	VIJAYAKUMAR J	MADHYA PRADESH	29.08.2013
50	MOHAMMED ALI SHIHAB A	NAGALAND	29.08.2013
51	RAJESH S	NAGALAND	29.08.2013
52	APNEET RIYAIT	PUNJAB	29.08.2013
53	ARVIND KUMAR M K	PUNJAB	29.08.2013
54	B SRINIVASAN	PUNJAB	29.08.2013
55	ABHIMANYU KUMAR	RAJASTHAN	29.08.2013
56	ANUPAMA JORWAL	RAJASTHAN	29.08.2013
57	BHAGWATI PRASAD KALAL	RAJASTHAN	29.08.2013
58	HAULIANLAL GUTE	RAJASTHAN	29.08.2013
59	NAKATE SHIVPRASAD MADAN	RAJASTHAN	29.08.2013

Sl. No.	Name of Officer (Ms/S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
60	SANDESH NAYAK	RAJASTHAN	29.08.2013
61	SHIVANGI SWARNAKAR	RAJASTHAN	29.08.2013
62	ANEESH SEKHAR S	TAMIL NADU	29.08.2013
63	CHANDRA SEKHAR SAKHAMURI	TAMIL NADU	29.08.2013
64	K VIJAYAKARTHIKEYAN	TAMIL NADU	29.08.2013
65	M ARVIND	TAMIL NADU	29.08.2013
66	MANTRI GOVINDA RAO	TAMIL NADU	29.08.2013
67	P MADHUSUDHAN REDDY	TAMIL NADU	29.08.2013
68	S DIVYADHARSHINI	TAMIL NADU	29.08.2013
69	V JAYA CHANDRA BHANU REDDY	TAMIL NADU	29.08.2013
70	DR. ASHISH KUMAR SRIVASTAVA	UTTARAKHAND	29.08.2013
71	NITIN SINGH BHADAURIA	UTTARAKHAND	29.08.2013
72	RAVI JHA	UTTARAKHAND	29.08.2013
73	ABHISHEK SINGH	UTTAR PRADESH	29.08.2013
74	AMIT KUMAR SINGH	UTTAR PRADESH	29.08.2013
75	ARAVIND MALLAPPA BANGARI	UTTAR PRADESH	29.08.2013
76	DEEPAK MEENA	UTTAR PRADESH	29.08.2013
77	KRISHNA KARUNESH	UTTAR PRADESH	30.08.2013
78	KUNAL SILKU	UTTAR PRADESH	29.08.2013
79	MANISH KUMAR VERMA	UTTAR PRADESH	29.08.2013
80	MANNAN AKHTAR	UTTAR PRADESH	29.08.2013
81	NAVNEET SINGH CHAHAL	UTTAR PRADESH	29.08.2013
82	PULKIT KHARE	UTTAR PRADESH	05.12.2013
83	RISHIRENDRA KUMAR	UTTAR PRADESH	29.08.2013
84	SHIV SAHAY AWASTHI	UTTAR PRADESH	29.08.2013
85	VISHAK G PUTHEN KIZHAKKE	UTTAR PRADESH	29.08.2013
86	DEEPAP PRIYA P	WEST BENGAL	29.08.2013
87	K RADHIKA AIYAR	WEST BENGAL	29.08.2013
88	NIKHIL NIRMAL	WEST BENGAL	29.08.2013
89	S ARUN PRASAD	WEST BENGAL	30.08.2013

Sl. No.	Name of Officer (Ms/S/Sh.)	Cadre	Due Date of Confirmation
90	SURENDRA KUMAR MEENA	WEST BENGAL	30.08.2013
91	U SWAROOP	WEST BENGAL	29.08.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi-110067, the 27th June 2014

No. 11011/35/2014-Trg (ISTM)—The President is pleased to appoint to Shri Praveen Prakash Ambashta, Deputy Director of AFHQ Civil Service, Ministry of Defence {working as Assistant Director (Office Management) in Institute of Secretariat Training and Management on deputation basis w.e.f. 03.04.2012} as Deputy Director (Vigilance Course) in the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, on deputation basis from 29.05.2014 to 02.04.2017 or till further orders, whichever is earlier.

ANIL TRIPATHI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 20th February 2014

No. A-12018/1/2007- DFQC [pt-II]—On the recommendations, duly approved by the Chairman and Members of the Departmental Promotion Committee meeting held in the Union Public Service Commission on the 03rd February, 2014 for the panel year 2013-14, the President is pleased to promote Dr. A. Ramkishan, regular Assistant Drugs Controller (India), CDSCO, Directorate General of Health Services to the post of Deputy Drugs Controller (India) in the same organisation, in the revised pay structure PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 7600/- (Group 'A'-Gazetted Non-Ministerial) plus usual admissible allowances in a regular temporary capacity with effect from the forenoon of the 14th February, 2014 and until further orders.

2. The promotion of the above officer is subject to successful completion of the probation period of one year. On promotion, the officer is entitled to option of fixation of pay in the revised pay structure from the date of promotion or the date of next annual increment in accordance with the CCS (Revised Pay) Rules, 2008 and instructions issued by the Government in this regard. Such option must be exercised within one month from the date of promotion.

3. The orders of posting, wherever necessary, will be issued by the Directorate General of Health Services.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

No. A.32022/01/2012-DFQC—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held on the 30th January, 2014, duly approved by the Union Public Service Commission, the President is pleased to promote the following regular Technical Officers in the Central Drugs Standards Control Organization (CDSCO), Directorate General of Health Services to the posts of Assistant Drugs Controller (India) in the same organisation in the pay structure Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay Rs. 6,600/- (Group 'A'-Gazetted Non-Ministerial) in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 14th February, 2014 until further orders.

1. Shri Sunil M. Joshi

2. Dr. Ravi Kant Sharma

2. On their regular promotion, Shri Sunil M. Joshi and Dr. Ravi Kant Sharma, ADC(I)s will be entitled to the option of fixation of their pay in the revised pay structure from the date of promotion or the date of next annual increment in

accordance with the CCS(Revised Pay) Rules, 2008 and instructions issued by the Government in this regard. Such option must be exercised within one month from the date of promotion.

3. The orders of their posting, wherever necessary, will be issued by the Directorate General of Health Services.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

The 5th March 2014

No. A.11013/1/2009-DFQC—Consequent on assessment of suitability by the Union Public Service Commission in terms of the notified Recruitment Rules, the President is pleased to appoint Dr. Narayanan Murugesan, Director, Central Drugs Testing Laboratory, Chennai to the upgraded pay scale of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- and admissible allowances in the revised pay structure, Pay Band-4 (Group 'A' Gazetted) in a temporary capacity with effect from the 13th July, 2010 and until further orders.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

CORRIGENDUM

No. A.32022/01/2012-DFQC—In the Ministry's Notification of even No. dated the 19th February, 2014 the date of appointment in respect of Shri Sunil M. Joshi and Dr. Ravi Kant Sharma to the posts of Assistant Drugs Controller (India) shall be corrected to read as the 12th February, 2014 (F.N.) instead of the 14th February, 2014 (F.N.).

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

The 12th March 2014

No. A.32022/01/2013-DFQC—On the recommendations of the Departmental Assessment Board constituted in the Union Public Service Commission in terms of Rule 5 of Department of Health (Group 'A' Gazetted Non-Medical Scientific and Technical Posts) In Situ Promotion Rules, 1990, the President is pleased to promote, on In-Situ basis, Shri C. Hariharan, Bacteriologist and Dr. Saroj Kumar Ghosh, Biochemist, Central Drugs Laboratory, Kolkata, Directorate General of Health Services from Scientist-2 level (PB-3 + GP Rs. 6,600/-) to Scientist-3 level (PB-3 + GP Rs. 7,600/-) with effect from the 11th March, 2014 and until further orders.

2. Accordingly, the grades of the posts of Bacteriologist and Biochemist immediately held by Shri C. Hariharan and Dr. Saroj Kumar Ghosh respectively shall stand upgraded to the level of PB-3 + GP Rs. 7,600/- with effect from the aforementioned date in term of Rule 9 of the In Situ Promotion Rules, 1990 (*ibid*) and shall revert to the original level on the vacation of it by the concerned officers.

3. On In Situ promotion, Shri C. Hariharan and Dr. Saroj Kumar Ghosh shall be entitled to the option of fixation of their pay in the revised pay structure from the date of promotion or the date of next annual increment in accordance with the CCS (Revised Pay) Rules, 2008 and instructions issued by the Government in this regard. Such option must be exercised within one month from the date of issue of these orders.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYUSH

New Delhi, the 10th December 2013

No. 12025/5/2013-E-I(AYUSH)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Amjad Ali, Medical Officer (Unani) is PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- + NPA and other allowances as admissible under rules w.e.f. 20/11/2013 (F.N.).

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

The 14th February 2014

No. A-12023/2/2009-Estt-I AYUSH—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. N Radha to the post of Adviser (Homoeo) in the Department of AYUSH in the pay scale of (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- plus Non-Practising Allowance w.e.f. 12.02.2014 (FN) until further orders.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the June 2014

No. 38017/1/2013-M.I—Consequent on the recommendations of Union Public Service Commission and with the approval of competent authority, the President is pleased to appoint Shri Akshay Yakub, Marketing Officer as Senior Marketing Officer (Group-1) in Pay Band-3, Rs. 15,600—39100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- on promotion in the Directorate of Marketing and Inspection, Branch Head Office, Nagpur, with effect from 20.05.2014 (forenoon).

ANITA MAHENDRU, Under Secy.

No. 38017/1/2013-M.I—Consequent on the recommendations of Union Public Service Commission and with the approval of competent authority, the President is pleased to appoint Shri Gaurav Vishnu, Marketing Officer as Senior Marketing Officer (Group-1) in Pay Band-3, Rs. 15,600—39100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- on promotion in the Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad, with effect from 19.05.2014 (forenoon).

ANITA MAHENDRU, Under Secy.

No. 38017/1/2013-M.I—Consequent on the recommendations of Union Public Service Commission and with the approval of competent authority, the President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Gupta, Marketing Officer as Senior Marketing Officer (Group-1) in Pay Band-3, Rs. 15,600—39100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- on promotion in the Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad, with effect from 19.05.2014 (forenoon).

ANITA MAHENDRU, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 13th March 2014

No. 5-10/2012-Admn: Consequent upon inclusion of their names to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Select List for the year 2011 vide DoPT's OM No. 5/13/2012-CS.I(U) dated 26th February, 2014, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers to Grade-I (Under Secretary) on regular basis in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the CSS cadre of Ministry of Women and Child Development w.e.f. 26/2/2014 :—

Sl. No.	Name of the Officer	CSL No.
1.	Shri Sudesh Kumar	7490
2.	Shri B.B. Baseshankar	7536

2. The appointment is subject to the terms and conditions in DoPT's OM mentioned above.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 18th March 2014

No. 5-6/2012-Admn—In pursuance of DoPT's OM No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 25th November, 2013, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar Bhatia, a regular Assistant of Central Secretariat Service(CSS) as Section Officer of

CSS in the pay band, PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- on ad-hoc basis in the Ministry of Women and Child Development with effect from the afternoon of 14/02/2014.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 19th March 2014

No. 5-13/2013-Admn—In pursuance of DoPT's Order No. 3/1/2011-CS.I(D) dated 07th March, 2014, the President is pleased to appoint Shri H.S. Nanda, a regular officer of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service to the Senior Selection Grade (Director) in PB-4 [Rs. 37,400—67,000/-] with a Grade Pay of Rs. 8,700/- on regular basis in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 07th of March, 2014.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 21st March 2014

No. 5-13/2012-Admn—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/7/2014-EO(SM.I) dated 06.03.2014, the President is pleased to appoint Shri A.B. Joshi, IPoS(79) as Additional Secretary in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 18th March, 2014.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 21st April 2014

No. 4-1/2014-Admn—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Arun Kumar Jain, IAS (NL:77), Secretary in the Ministry of Women and Child Development stands retired from Government Service with effect from 30.04.2014 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 12th May 2014

No. 5-12/2013-Admn—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/13/2014-EO(SM.I) dated 01.05.2014, the President is pleased to appoint Shri Shankar Aggarwal, IAS (UP:80) as Secretary in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 02nd May, 2014.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

No. 5-13/2013-Admn—In pursuance of DoPT's Order No. 3/1/2011-CS.I(D) dated 30th April, 2014, the President is pleased to appoint the following regular officers of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service to the Senior Selection Grade (Director) in PB-4 [Rs. 37,400—67000/-] with a Grade Pay of Rs. 8,700/- on adhoc basis in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 30th April, 2014 :—

Sl. No.	Name	CSL No.
1.	Shri Ghanshyam Devnani	4454
2.	Shri Gulshan Lal	4516

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 20th May 2014

No. 4-4/2012-Admn.—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt Uma Bala Maini, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government Service with effect from 31.05.2014 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 6th May 2014

No. A. 32013/1/2013--E.I(B)—Consequent on inclusion of her name in the Select List Year 2013 of Principal Private Secretary of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/2/2013-CS.II(A) dated 30.04.2014, the President is pleased to appoint Smt. Raj Mohan Ahluwalia, Private Secretary in this Ministry as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 01.05.2014 (F/N).

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 3rd September 2013

No. A-22016/1/2013-Admn.II—Consequent upon their nomination to this Ministry itself for appointment as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service on the basis of results of Combined Section Officers/Stenographers' (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination 2009, 2010 & 2011, vide DoP&T's O.M. No. 4/6/2013-CS-II(A), Dt. 22/08/13, the under-mentioned Stenographers Grade 'C' is appointed to the post of Private Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the date mentioned below. Further, they are posted to the office as mentioned below w.e.f. their joining dates, until further orders :—

Sr. No.	Name (Sh./Smt./Ms.)	Select List Year for which nominated/ Rank	Date of Joining in M/o I&B	Posting in M/o I&B
1.	Chander Shekher	2010/ Rank 24	23/08/13(FN)	Main Sectt. [(O/o. Secretary (I&B))]
2.	Suman	2011/Rank 26	23/08/13(FN)	DG : AIR

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

The 6th September 2013

No. 7/1/2007-Admn.II—Consequent upon inclusion of his name for the Select List Year 2010 of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service and subsequent nomination to M/o Information & Broadcasting vide DoP&T O.M. Nos. 3/3/2011-CS.II(A), dated 20/03/2012 and 08/08/2013, Shri S. Samaddar, Principal Private Secretary of M/o. Health and Family Welfare has reported for duty in this Ministry as Principal Private Secretary on regular basis on 02/09/2013 (F/N).

2. He is taken on the rolls of this Ministry and posted in O/o Additional Secretary (I&B) in Main Sectt., with effect from the same date and until further orders.

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

The 9th September 2013

No. A-22014/3/2013-Admn. II—Consequent upon their qualifying Combined Limited Departmental Competitive Examinations – 2009, 2010 and 2011 for Section Officer of Central Secretariat Service and subsequent nomination to this Ministry against Examination Quota vide DoPT's O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 13/08/2013, 19/08/2013 and 30/08/2013, the President is pleased to appoint the following S.O. (ad-hoc)/Assistant of Central Secretariat Service as Section Officer of Central Secretariat Service on regular basis in Ministry of Information & Broadcasting with effect from the date of their joining duties in this Ministry. Further, they are taken on the rolls of the Main Sectt./Attached Office (s) and subsequently posted there as Section Officer on regular basis with effect from the date of their joining in this Ministry as per details given below :—

Sl. No.	Name (S/Sh/Ms)	Previous Ministry/ Deptt.	Select List Year/Rank No.	Date of Joining M/o I&B	Posting given in this Ministry in
1.	Phani Tulashi K. Ch.	Rural Development	2009/49	23/08/2013 (A/N)	DG: DD
2.	Deepak Khatwani	Planning Commission	2009/88	02/09/2013 (F/N)	DG: AIR
3.	Ramesan C.V.	Rural Development	2009/90	30/08/2013(F/N)	Main Sectt. as D.O. [F(A)] Desk
4.	Sarita Garg	Youth Affairs	2009/166	30/08/2013 (A/N)	DG: AIR
5.	Sudesh Kumar	Agriculture	2009/276	04/09/2013 (F/N)	Main Sectt. as S.O. (BC-III)
6.	Gur Kamal Jit Singh	Social Justice	2009/332	30/08/2013 (A/N)	PIB
7.	Lalita T. Hedao	UPSC	2009/345	29/08/2013 (A/N)	DPD
8.	Aruna Verma	Fertilizers	2010/59	29/08/2013 (A/N)	Main Sectt. as D.O. [F(FTI)]
9.	Padma Charan Padhy	Urban Development	2010/68	30/08/2013 (A/N)	DG: AIR
10.	Mohan Kumar T.	Consumer Affairs	2010/211	30/08/2013 (F/N)	Main Sectt. as D.O. [F(C)]
11.	Kuldeep Singh	Main Sectt. M/o I&B	2011/41	30/08/2013 (A/N)	Main Sectt. as S.O. (BA-P)
12.	Sunil Bhatia	DG: AIR M/o I&B	2011/119	02/09/2013 (F/N)	DG: AIR
13.	Soumitra Sen	Main Sectt. M/o I&B	2011/168	02/09/2013 (F/N)	DPD
14.	Sadhu Singh	Main Sectt. M/o I&B	2011/181	02/09/2013 (F/N)	DG: AIR
15.	Sunil Kumar Vaid	DG: AIR M/o I&B	2011/186	02/09/2013 (F/N)	DG: DD

Sl. No.	Name (S/Sh/Ms)	Previous Ministry/ Deptt.	Select List Year/Rank No.	Date of Joining M/o I&B	Posting given in this Ministry in
16.	Suresh Kumar Dewan	PIB M/o I&B	2011/188	30/08/2013 (A/N)	DAVP
17.	P. Balasubramaniyan	O/o RNI M/o I&B	2011/190	02/09/2013 (F/N)	O/o RNI

2. Further, their appointments shall be subject to the conditions as laid down in DoPT's O.M.s ibid.

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

The 18th September 2013

No. A-22015/2/2013-Admn.II—Consequent upon inclusion of his name for the Select List Year 2012 of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service and subsequent nomination to M/o Information & Broadcasting vide DoP&T O.M. No. 3/6/2012-CS.II(A), dated 30/08/2013, Sh. Niranjan Kumar Upadhyaya, Principal Private Secretary (ad-hoc) of D/o. Telecommunications has reported for duty in this Ministry as Principal Private Secretary on regular basis on 11/09/2013 (F/N).

2. On his promotion to the PPS grade, Shri Upadhyaya is hereby posted in DG:DDn with immediate effect and until further orders.

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

The 26th September 2013

No. A-22015/2/2013-Admn.II—Consequent upon inclusion of her name for the Select List Year 2012 of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service and subsequent nomination to M/o Information & Broadcasting vide DoP&T O.M. No. 3/6/2012-CS.II(A), dated 30/08/2013, Smt. S. Girija, Private Secretary in the M/o Steel reported for duty in this Ministry as Principal Private Secretary on regular basis on 20/09/2013 (F/N) is hereby taken on the strength of this Ministry w.e.f. the same date.

2. On her promotion to the PPS grade, Smt. Girija is hereby posted in PIB with immediate effect and until further orders.

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

No. 8/2/2011-Admn.II—Consequent upon inclusion of his name in the select list of Private Secretaries for the year 2010 vide DoP&T's O.M. nos. 4/2/2012-CS.II(A), dated 17.02.2013 and 07.06.2013, Shri S. Venkatasubramanian, PS (ad-hoc) is appointed as regular Private Secretary (PS) of CSSS Cadre of this Ministry w.e.f. 20.06.2013 (FN).

2. On his promotion as PS on regular basis, Shri S. Venkatasubramanian will continue to work in the Main Sectt., in the O/o. JS(B-II), until further orders.

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

No. A-22014/3/2013-Admn. II—Consequent upon their qualifying Combined Limited Departmental Competitive Examinations – 2009, 2010 and 2011 for Section Officer of Central Secretariat Service and subsequent nomination to this Ministry against Examination Quota vide DoPT's O.M. No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 13/08/2013 and 30/08/2013, the President is pleased to appoint the following Section Officer (ad-hoc)/Assistant of Central Secretariat Service as Section Officer of Central Secretariat Service on regular basis in Ministry of Information & Broadcasting with effect from the date of their joining duties in this Ministry. Further, they are taken on the rolls of the Main Sectt./Attached Office(s) and

subsequently posted there as Section Officer on regular basis with effect from the date of their joining in this Ministry as per details given below :—

Sl. No.	Name (S/Sh/Ms)	Previous Ministry/ Deptt.	Select List Year/Rank No.	Date of Joining M/o I&B	Posting given in this Ministry in
1.	Laxmi Kant Mandal	Education	2009/28	09/09/2013 (F/N)	Main Sectt. as S.O. (Vig.-2)
2.	Rajendra Prasad Gupta	Food	2009/68	06/09/2013 (F/N)	DG: AIR
3.	R. Venkateswaran	Agriculture	2009/111	11/09/2013 (F/N)	DG: AIR
4.	Anita Dinesh	Economic Affairs	2009/206	06/09/2013 (F/N)	DAVP
5.	Nand Lal	Food	2009/285	06/09/2013 (F/N)	PIB
6.	Rajni Saxena	Health	2010/29	24/09/2013 (F/N)	PIB
7.	B. Swaminathan	Culture	2011/65	18/09/2013 (F/N)	DG: DD
8.	K. Srinivasa Rao	Culture	2011/74	17/09/2013 (A/N)	Main Sectt. as S.O. (B&A)
9.	Sarat Kumar Dehury	Labour & Employment	2011/117	06/09/2013 (A/N)	DG: AIR

2. Further, their appointments shall be subject to the conditions as laid down in DoPT's O.M.s ibid.

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

The 25th October 2013

No. A-23020/2/2012-Admn. II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 5/13/2012-CS.I(U) dated 23/09/2013 conveying therein approval of the Competent Authority for inclusion in the Select List Year 2011 of Grade-I officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service, the following regular Section Officers of Central Secretariat Service cadre of this Ministry, presently working as Under Secretary on ad-hoc basis, are hereby appointed on regular basis as Grade-I officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service w.e.f. 23/09/2013 i.e. the date of issuance of DoPT's O.M. ibid :—

Sl. No.	Name (S/Sh)	CSL No.	Present Office
1.	Parijat Diwan	6862	DAVP
2.	Anil Kumar Pandey	6878	Main Sectt.
3.	Rajesh Kumar	6910	Main Sectt.
4.	Shailesh Gautam	7002	Main Sectt.
5.	Shree Bhagwan Pandey	7008	Main Sectt.
6.	Neeraj Kumar	7130	Main Sectt.
7.	Ranvir Singh	7500	Main Sectt.

KISHORE SRIVASTAVA, Under Secy.

New Delhi, the 28th May 2014

No. A-23021/1/2013-Admn. II—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2011 against Seniority Quota of CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting vide DoPT's O.M. No. 6/2/2013-CS-I (S)-III dated 25/09/2013, the President is pleased to appoint Shri S.N. Nautiyal, regular Assistant [1996/199] of CSS cadre of this Ministry, presently working as Section Officer on ad-hoc basis in DG: Doordarshan, as Section Officer on regular basis for the select list year 2011.

2. Further, his appointment/inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2011 is subject to the conditions as laid down in DoPT's O.M. referred to above.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

The 30th May 2014

No. A-22015/2/2013-Admn.II—Consequent upon inclusion of his name for the Select List Year 2013 of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service vide DoP&T O.M. No. 3/2/2013-CS.II(A), dated 30/04/2014 and subsequent retention in M/o Information & Broadcasting for 08 months vide DoP&T's O.M. *ibid*, dated 02.05.2014, Shri S. Sivarama Krishnan, Private Secretary of this Ministry posted in DG : AIR has reported for duty in this Ministry as Principal Private Secretary in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay- Rs. 6,600/- on 02.05.2014 (F/N) is hereby taken on the strength of this Ministry w.e.f. the same date and posted in DG: AIR itself. Shri S. Sivarama Krishnan stands nominated to Department of Expenditure on his regular promotion to the post of PPS.

2. On completion of 08 months i.e. 02.01.2015, he would be relieved to join Department of Expenditure as PPS.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

No. A-22015/2/2013-Admn.II : Consequent upon inclusion of their names for the Select List Year 2013 of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service and subsequent nomination in M/o Information & Broadcasting vide DoP&T O.M. No. 3/2/2013-CS.II(A), dated 30/04/2014, the undermentioned regular Private Secretaries of this Ministry has reported for duty in this Ministry as Principal Private Secretary in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned below. Further, they are posted to the office as mentioned below w.e.f. their joining dates, until further orders :—

Sr. No.	Name (Sh./Smt./Ms.)	Select List Year of PPS	Cadre/Office where working	Date of Joining in M/o I&B	Posting in M/o I&B
1.	Shri Gurmukh Chandwani	2013	AIR	30.04.14 (FN)	Retired on 30.04.14(AN) on superannuation from AIR
2.	Smt. Geeta Sridharan	2013	PIB	30.04.14 (FN)	PIB
3.	Smt. Santosh Jayant	2013	DDn	30.04.14 (FN)	DDn
4.	Shri Manmohan Singh*	2013	Commerce	09.05.14 (FN)	DPD

*Shri Manmohan Singh would work in the O/o HMIB(IC), Main Sectt. on loan basis.

BHASKAR BANDYOPADHYAY, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in